



अंक 1, 15 मई 2017

संगठन संवाद पत्र

विस्तारक प्रवास, पश्चिम बंगाल

25, 26, 27 अप्रैल 2017



अबकी बार बंगाल



भा रतीय जनता पार्टी दीन दयाल जन्मशताब्दी के अवसर को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में देश भर में मना रही है। गरीब कल्याण वर्ष की मूल परिकल्पना ही अन्त्योदय की अवधारणा पर केन्द्रित है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने जिस भारत की कल्पना एकात्म मानव दर्शन और अन्त्योदय की अवधारणा के माध्यम से की थी, वह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भाजपा की वैचारिक रीति-नीति के माध्यम से फलीभूत होने की ओर अग्रसर है। आज जब भाजपा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, ऐसे में पार्टी की संगठनात्मक संरचना के माध्यम से जन-जन तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित पार्टी की नीतियों को समाज में विस्तार देने का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक मजबूती, पार्टी के विस्तार, पार्टी को युगानुकूल रखने हेतु आधुनिकीकरण एवं लोगों से मिलने-जुलने और जन-संवाद करने की दिशा में व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इस अखिल भारतीय प्रवास के अंतर्गत देश के 5 राज्यों में श्री अमित शाह का बूथ विस्तारक प्रवास कार्यक्रम भी तय है। पश्चिम बंगाल से विस्तारक प्रवास की शुरुआत करते हुए 25-26-27 अप्रैल को श्री अमित शाह समाज के विविध क्षेत्रों के लोगों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं आदि से मिले और निम्नलिखित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

25 अप्रैल 2017

(प्रातः 8:15 से रात्रि 12:00 बजे तक)

8:15- दिल्ली से प्रस्थान

11:30- राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का बागडोगरा हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। पश्चिम बंगाल आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उमंग और उत्साह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया।

11:45- सिलीगुड़ी क्लब मॉंटाना विस्टा, दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान

12:00- श्री अमित शाह सिलीगुड़ी क्लब मॉंटाना विस्टा पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक एवं चर्चा

12:30- नक्सलबाड़ी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का प्रस्थान।

1:00- नक्सलबाड़ी स्थित बूथ संख्या 93 पर श्री राजू महाली और श्रीमती गीता महाली के घर भोजन किया।

1:30- नक्सलबाड़ी की बूथ संख्या 93 पर श्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनसे संवाद किया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय विस्तार योजना के अंतर्गत अपने विस्तारक दायित्व का शुभारंभ किया।





- 3:00- नक्सलबाड़ी के बूथ संख्या 93 पर संपर्क अभियान के अंतर्गत 6 परिवारों से मिले और उनसे चर्चा
- 4:30- सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम के लिए प्रस्थान
- 6:00- सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
- 6:30- सिद्धिविनायक भवन के लिए प्रस्थान
- 7:30- सिद्धि विनायक भवन में पश्चिम बंगाल के आठ जिलों के जिलाध्यक्षों से परिचय भेंट एवं भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए और 8:30 पर प्रस्थान किया.
- 8:45- न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक
- 9:00- पार्टी पदाधिकारियों के साथ रेल द्वारा कोलकाता के लिए प्रस्थान
- 10:30- रेल यात्रा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल पर चर्चा.
- 12:00- रेल यात्रा में रात्रि विश्राम.

26 अप्रैल 2017

(प्रातः 6:45 से रात्रि 1:00 बजे तक)

- 6:45- श्री अमित शाह का सियालदह रेलवे स्टेशन पर आगमन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 9:00- पार्टी पदाधिकारियों के साथ पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस में बैठक
- 11:00- कोलकाता प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया
- 1:00- भवानीपुर विधानसभा के लिए प्रस्थान
- 1:30- भवानीपुर विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की एवं उनसे चर्चा
- 2:30- भवानीपुर विधानसभा में संपर्क अभियान के अंतर्गत 5 परिवारों से संपर्क किया एवं प्रस्थान





- 5:00-** पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस से महाजाति सदन के लिए प्रस्थान
- 5:30-** महाजाति सदन कोलकाता में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की. सम्मेलन के बाद 7:30 पर गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 8:30-** श्री अमित शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक एवं चर्चा
- 10:30-** राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक
- 1:00-** रात्रि विश्राम

27 अप्रैल 2017

(प्रातः 8:45 से रात्रि 9:30 तक)

- 8:45-** संकीर्तन समूह से जुड़े लोगों से मुलाकात और चर्चा
- 9:15-** संघ परिवार के साथ पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस में बैठक
- 11:00-** समाचार चैनल से साक्षात्कार
- 12:00-** पश्चिम बंगाल कोर टीम के साथ विस्तृत बैठक कार्यक्रम
- 1:30-** डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास स्थल पर जा कर पुष्पांजलि अर्पण
- 2:00-** राजरहट न्यू टाउन विधानसभा के लिए प्रस्थान
- 2:30-** राजरहट न्यू टाउन विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक
- 3:30-** राजरहट न्यू टाउन विधानसभा में संपर्क अभियान के तहत बूथ संख्या 231 के 5 परिवारों से संपर्क और संवाद किया
- 4:30-** राजरहट न्यू टाउन विधानसभा से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 4:45-** वरिष्ठ संघ पदाधिकारी श्री भगैया जी के साथ हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में बैठक
- 6:30-** दिल्ली के लिए प्रस्थान
- 9:30-** दिल्ली निवास पर आगमन



पंडित दीन दयाल उपाध्याय विस्तारक योजना

भा रतीय जनता पार्टी दीन दयाल जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है, और दीन दयाल उपाध्याय बूथ विस्तारक योजना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय विस्तारक योजना के उद्देश्य को लेकर पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। इस योजना के माध्यम से पार्टी के विस्तारक जिस ध्येय को लेकर निकलेंगे वो निम्नलिखित है।

- पार्टी के संगठनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करने, समाज से पार्टी का सीधा संपर्क बनाने, सरकार की नीतियों और योजनाओं से जनता को अवगत कराने, रचनात्मक कार्यों को अमल में लाने, दीन दयाल जन्मशताब्दी योजना से जुड़े कार्यों पर चर्चा करना इत्यादि है। विस्तारकों के माध्यम से पार्टी इस कार्यक्रम को अमल में लाने का कार्य करेगी।
- संगठनात्मक स्तर पर विस्तारकों के माध्यम से बूथ पर पहले से बने सदस्यों और सक्रिय सदस्यों से संपर्क करना, बूथ समिति की बैठक एवं गठन का कार्य करना, प्रत्येक घर से संपर्क में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बूथ स्तर पर युवाओं, महिलाओं आदि की टोली बनाना। बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान तेज करते हुए नए सदस्य बनाना और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना, इत्यादि कार्य तय किए गए हैं।
- समाज और संपर्क के स्तर पर इस योजना के अंतर्गत बूथ के प्रभावी लोगों से मिलना, सभाएं आयोजित करना, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ना और मोदी एप और भीम एप डाउनलोड कराना, जैसे दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं।



- सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में समाज को जागरूक करने और लाभान्वित लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने जैसे कार्यों को भी इसके उद्देश्यों में अंतर्निहित है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने बूथ विस्तारक योजना पर निम्नलिखित बातें कही हैं...

पार्टी के प्रत्येक विस्तारक को यह सोचकर नहीं निकलना चाहिए कि उसका उद्देश्य महज भाजपा को मजबूत करना है। विस्तारक कार्यकर्ता का उद्देश्य पार्टी की मजबूती के माध्यम से इस महान देश के सांस्कृतिक विरासत और इसके परम वैभव को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने का होना चाहिए।

देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे के मन में भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना पलना और पूरा होना भी भाजपा का विस्तार कार्यक्रम का उद्देश्य है।

भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को लेकर चलने वाली पार्टी है। राजनीति में भाजपा का उद्देश्य सत्ता नहीं होना चाहिए बल्कि सत्ता और राजनीति के माध्यम से भारत के गौरव को विश्व पटल पर स्थापित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

एबार बांग्ला



राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल प्रवास कार्यक्रम से पार्टी को कई स्तरों पर लाभ मिला है। श्री अमित शाह के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रमों, बूथ संपर्क अभियान एवं संवाद सम्मेलन आदि से पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के विस्तारक प्रवास को पार्टी निम्नलिखित उपलब्धियों के रूप में देख रही है।

- राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करने से वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है। नक्सलवादियों के हिंसक आंदोलनों की जन्मस्थली के रूप में जिस नक्सलबाड़ी को अभी तक जाना जाता था, वहां अब श्री अमित शाह ने सरकार की नीतियों से जन कल्याण की बहस को शुरू करने का कार्य किया है, जो पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल की दृष्टि से एक उपलब्धि है।
- नक्सलबाड़ी से इस बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत करके श्री अमित शाह ने देश में हिंसक हो चुके नक्सलवादी तत्वों को सख्त संदेश देने का कार्य किया।
- पश्चिम बंगाल के एक संकीर्तन समूह के साथ मिलकर श्री अमित शाह ने वहां के स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़ने की दिशा में बड़ा संदेश दिया। इस समूह से पाँच लाख परिवार जुड़े हैं। इन लोगों ने प्रदेश सरकार के तृष्णकरण से हो रही दिक्कतों को साझा किया।
- श्री अमित शाह द्वारा महाजाति सदन में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करने और उनसे विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने से कोलकाता के प्रबुद्ध वर्ग के बीच पार्टी के साथ संवाद की एक बेहतर परंपरा की शुरुआत हुई।
- बूथ संख्या 231 पर कार्यकर्ताओं से मिलने और संबोधित करने का लाभ न सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी पार्टी को मिलेगा।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 269 पर बूथ संपर्क कार्यक्रम के तहत श्री अमित शाह के पहुँचने से वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ और सत्ताधारी दल भाजपा को बड़ी चुनौती के रूप में देखने लगा, जो पार्टी के लिए शुरुआती उपलब्धि है।
- राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा श्री राजू महाली के घर जाकर भोजन करने का संदेश पश्चिम बंगाल के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।



६६ यह वही नक्सलबाड़ी है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, आज उसी नक्सलबाड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। ९९

६६ पश्चिम बंगाल सरकार को यदि लगता है कि किस कार्यों में बाधा डाल कर वे मोदी जी के रथ को वे रोक पायेंगे तो यह उनकी भूल है। ९९

पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा दिए गए उद्धोचनों के मुख्य बिंदु:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने तीन साल में गरीबों के उत्थान के लिए देश के अंतिम से अंतिम गाँव तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है लेकिन पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती।

मैं स्पष्टता, गौरव और विश्वास के साथ कहता हूँ कि देश के सभी राजनीतिक दलों में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र बचा हुआ है। हम हर बार, हर 3 साल बाद बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव तय समय पर अपने संविधान के अनुरूप करते हैं।

मैं पश्चिम बंगाल की जनता से करबद्ध निवेदन करने आया हूँ कि सोनार बांग्ला के नवनिर्माण में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आयेँ और इस विकास-यात्रा में भागीदार बनें।

जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मैं मानता हूँ कि यह पश्चिम बंगाल की संस्कृति और संस्कार पर कुठाराघात है, इससे राज्य की जनता में काफी गुस्सा व आक्रोश है और इसके विरोध में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं।

यदि तृणमूल कांग्रेस यह समझती है कि हिंसक हमलों के जरिये वे भारतीय जनता पार्टी को राज्य में रोक पायेंगे तो मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से प्रदेश में कमल मुरझायेगा नहीं बल्कि और अच्छे तरीके से खिलकर सामने आयेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की अभूतपूर्व विजय के बाद पश्चिम बंगाल में भी पार्टी कार्यकर्ता 'एबार बांग्ला' अर्थात् अबकी बार पश्चिम बंगाल का सूत्र लेकर राज्य के घर-घर तक जायेंगे और मोदी जी के विजय रथ को और भी दिग्विजयी बनाने का काम करेंगे।

পাত পেড়ে খাওয়ানো হল না অমিত
শাহকে, আফশোস করছেন মামণিরা

লোকতন্ত্র বিহীন পার্টি'র
বিকাশ নহী : অমিত শাহ

आदिवासी के घर पर फर्श पर केले
के पत्ते में अमित शाह ने किया भोजन

স্বাধীনতার পর তৃণমূল শাসনেই বেশি অত্যাচার

রাজনীতি
অমিতের
কাছে
নিরাপত্তার
আবেদন
আলপনাদের

প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে বারবার
যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেলেন অমিত

তৃণমূলকে উৎখাত করে
পরিবর্তন আনব: অমিত

Shah 'confirms' BJP win in Bengal

Mission Bengal begins in CM backyard
BJP chief on stump
DATA DUEL



গণতন্ত্র আর
উন্নয়নে শহরে
মন অমিতের

'সোনার বাংলা' के लिए
परिवर्तन जरूरी : शाह

बंगाल में भी खिलेगा कमल : अमित शाह

'বাঙালি বাবু' হয়ে
কলাপাতায় ভোজ

Bengal most poverty-stricken state: Amit

ममता के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में गरजे अमित शाह...
अबकी बार बंगाल में भाजपा सरकार
कहा, राज्य प्रशासन
का हो गया है

দলিতের দরজায় বিজেপির শাহ

अमित शाह की निगाहें अब पश्चिम बंगाल पर...

मोदी का रथ नहीं रोक पाएगी तृणमूल कांग्रेस : शाह

বামেদের ভোট বিজেপি'তে যাচ্ছে,
রাজ্য কমিটির বৈঠকে কবুল সূর্যের

विजय, भाजपिनि, कमलका, ममताके ठेके विजेपि'के माझे। ममताके ठेके अक
दरजे तृणमूल का ममताके ठेके 'ममता' के ठेके। ममताके ठेके अक
कहा, राज्य प्रशासन का हो गया है



<http://www.bjp.org/adhyakshiyapravas2017>